

**@shajhanpurpol**

**प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 15.11.2020**

**गौकशी की झूठी सूचना पर थाना मदनापुर पुलिस ने की कडी कार्यवाही ।**

त्यौहारों पर शांतिव्यवस्था बनाये रखने एवं डायल 112 की सार्थकता बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा समस्त पुलिस फोर्स को प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने साथ- साथ ही झूठी सूचना देकर माहौल खराब करने व परेशान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिये कडे निर्देश दिये गये है ।।

इसी क्रम मे दिनांक 14.11.2020 को थाना क्षेत्र के ग्राम सैनाखेडा के रहने वाले मंगूलाल पुत्र गुलजारी लाल ने यूपी-112 व प्रभारी निरीक्षक मदनापुर व उच्चाधिकारीगणो को जरिये दूरभाष नं 8127576685 से गौकशी की सूचना दी थी । जिस पर तत्काल प्र0नि0 महोदय मय फोर्स के बताये गये स्थान पर पहुचे तो सूचना सत्य नही पायी गयी तथा कालर द्वारा झूठी सूचना दी गयी थी ।

गौकशी की झूठी सूचना देकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले मंगूलाल को थाना मदनापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर अपने गांव से बुधवाना की ओर से आते हुए दबिश देकर दोपहर समय 13.30 बजे बिलगरा मोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना मदनापुर पर मु0अ0सं0 579/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1- मंगूलाल पुत्र गुलजारी लाल उम्र 25 वर्ष लगभग ग्राम सैनाखेडा थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर

### **पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि गांव मे सनसनी फैलाने के लिये तथा गौकशी सुनकर जनता मे रोष उत्पन्न करने हेतु मैंने झूठी सूचना दी थी तथा मुझे पुलिस को झूठी सूचना देकर परेशान करना बहुत अच्छा लगता है ।

### **आपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं0 579/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मदनापुर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद तमन्चा 12 बोर नाजायज
2. दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर
3. एक अदद मोबाइल की-पैड सैमसंग

### **गिरफ्तार करने वाली टीम**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2-उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3-हे0का0 101 सत्यवीर सिंह थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर ।
- 4-का0 1946 जितेन्द्र कुमार थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर ।